

सं. 18(ए) भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

(₹ करोड़)

स्रोत	अप्रैल-मार्च		31 मार्च तक	
	2023-24	2024-25	2024-25	2025-26 अ
	1	2	3	4
1 गैर-खाद्य बैंक ऋण	22,95,121	18,08,036	18,08,036	29,19,166
2 गैर-बैंक स्रोत (2.1+2.2)	12,63,721	17,10,346	14,24,965	15,47,794
2.1 घरेलू स्रोत	10,20,302	13,85,609	10,97,953	10,56,130
2.1.1 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा इक्विटी निर्गम	1,35,008	3,81,161	3,69,462	3,45,296
2.1.2 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा कारपोरेट बॉण्ड निर्गम	1,67,374	1,97,795	1,35,172	3,01,491
2.1.3 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा हाइब्रिड लिखत(आरईआईटीएस/आईएनवीआईटीएस)	39,024	31,442	22,702	20,989
2.1.4 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक पेपर निर्गम	19,712	18,819	18,819	7,948
2.1.5 आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऋण (बैंक ऋण निवल)	1,41,816	1,34,852	1,22,439	1,109
2.1.6 आरबीआई-विनियमित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण	73,386	99,501	56,759	16,561
2.1.7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण (बैंक ऋण निवल)	4,43,982	5,22,037	3,72,600	3,62,734
2.2 विदेशी स्रोत	2,43,419	3,24,737	3,27,012	4,91,664
2.2.1 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार	27,916	19,090	12,484	31,720
2.2.2 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा एडीआर/जीडीआर	0	0	0	0
2.2.3 विदेश से अल्पकालिक ऋण	-6,741	58,859	97,039	1,35,813
2.2.4 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	2,22,244	2,46,788	2,17,489	3,24,131
3 संसाधनों का कुल प्रवाह (1+2)	35,58,842	35,18,382	32,33,001	44,66,960

अ: अन्तिम

स्रोत संख्या 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.2.1, 2.2.2 और 2.2.4 से कॉलम 4 और 5 के लिए डेटा का कवरेज: फरवरी तक।

2.1.7 और 2.2.3: सितंबर तक।

टिप्पणियाँ: i. गैर-खाद्य बैंक ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से संबंधित है और इसमें सहकारी बैंकों द्वारा दिया गया ऋण शामिल नहीं है।

ii. बैंकों, एनबीएफसी और एचएफसी द्वारा दिए गए ऋण में व्यक्तिगत ऋण शामिल हैं।

iii. इक्विटी और हाइब्रिड लिखतों जो सकल आधार पर हैं, को छोड़कर सभी मदों पर डेटा निवल आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

iv. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्विजम बैंक) और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) शामिल हैं। एआईएफआई द्वारा दिए गए ऋण में एससीबी, एनबीएफसी और एचएफसी को पुनर्वित्तपोषण तथा घरेलू विदेशी सरकारों/संस्थानों को प्रदत्त प्रत्यक्ष ऋण शामिल नहीं हैं।

v. एचडीएफसी लिमिटेड जिसका 1 जुलाई, 2023 से एचडीएफसी बैंक में विलय हो गया, से संबंधित डेटा, विलय से पहले आवास वित्त कंपनियों द्वारा दिए गए ऋण के अंतर्गत आता है, जबकि विलय के बाद यह बैंक ऋण के अंतर्गत आता है।

vi. आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा दिए गए ऋण के डेटा को कुछ एचएफसी के एनबीएफसी में रूपांतरण के लिए समायोजित किया गया है।

स्रोत: आरबीआई; सेबी; एआईएफआई; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।